

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग के अंतर्गतकेंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 31 अगस्त, 1985 को नीचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी :-

- (1) केंद्र सरकार के मंत्रालयों कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का तथा अंग्रेजी टंकण और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- (2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
- (3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं, किंतु हिंदी में कार्य करने में कठनाई महसूस करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के उप संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान के अंतर्गत मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में 5 उप संस्थान काम कर रहे हैं। साथ ही हिंदी शिक्षण योजना के गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। देश भर में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी भाषा व हिंदी टंकण /आशुलिपि का प्रशिक्षण देने के लिए 390 पूर्णकालिक व 04 अंशकालिक प्रशिक्षणकेंद्र चल रहे हैं।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित अन्य सूचनाएं <http://chti.rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध हैं ।

गत 5 वर्षों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

भाषा	वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रशिक्षण	लक्ष्य	37310	36500	37780	36480	37010
	उपलब्धि	26202	26162	28647	27463	27213
प्रतिशत उपलब्धि		70.22	71.67	75.82	75.28	73.52

हिंदी टंकण	वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
प्रशिक्षण	लक्ष्य	4670	4860	4450	4360	4840
	उपलब्धि	3171	3401	3442	3931	3795
प्रतिशत उपलब्धि		67.90	69.97	77.34	90.16	78.40

हिंदी	वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आशुलिपि प्रशिक्षण	लक्ष्य	1460	1470	1440	1410	1470
	उपलब्धि	318	265	339	322	352
प्रतिशत उपलब्धि		21.78	18.0	23.54	22.83	23.94

वर्ष 2017- 18 के लक्ष्य

वर्ष 2017-18 प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

	लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2017 तक)
भाषा प्रशिक्षण	35580	24418
टंकण प्रशिक्षण	4180	3641
आशुलिपि प्रशिक्षण	870	156

वर्ष 2018- 19 के लक्ष्य

वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान प्रशिक्षण का लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है :-

भाषा प्रशिक्षण	38750
टंकण प्रशिक्षण	4740
आशुलिपि प्रशिक्षण	930